

कृषि विज्ञान केन्द्र जबलपुर की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की ऑनलाइन पंद्रहवी बैठक आयोजित

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय के संचालक विस्तार सेवार्य के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्र जबलपुर की आज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार बिसेन की अध्यक्षता में किया गया इस अवसर पर विश्व विद्यालय की संचालक विस्तार सेवार्य डॉ.ओम गुप्ता, निदेशक अटारी डॉ. अनुपम मिश्रा, ऑनलाइन बैठक में सम्मिलित हुये एवं वर्तमान वैश्विक समस्या के दौर में कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाये. कृषि विज्ञान केन्द्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. रश्मि शुक्ला ने केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन तथा प्रस्तावित कार्य योजना का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रस्तुतीकरण किया. इस बैठक में संयुक्त संचालक विस्तार सेवार्य डॉ. डी.पी. शर्मा ने बताया की वर्तमान परिस्थितियों में कृषकों के हितार्थ सतत किसान मोबाइल संदेश व् वाट्सएप के द्वारा समसामयिक जानकारी प्रदत्त करे साथ ही इस समय ऑनलाइन कृषकों की समस्याओं की जानकारी एवं फसल की जानकारी निरंतर जारी रखे ताकि जरूरतमंद कृषकों एवं प्रवासी श्रमिकों को सार्थक लाभ हो सके.

वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभिन्न विभागों जैसे किसान कल्याण कृषि विभाग, उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी, डीडीएम नाबाई, मृदा परिक्षण, पशु पालन, आजीविका मिशन, स्वयं सेवी संस्थान, के प्रतिनिधि तथा प्रगतिशील कृषक एवं कृषि उद्यमियों ने भाग लेकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये. इस अवसर पर विभिन्न विभागों के विभाध्यक्ष डॉ. ए.के. भोमिक, डॉ. ए.के. द्विवेदी, डॉ. एस.के. पाण्डेय, डॉ.एस.एस. शुक्ला आदि ने जैव उर्वकों के इस्तेमाल, जैविक कीटनाशकों के उपयोग, मशरूम उत्पादन आदि पर विशेष बल देने की बात की.

निदेशक अटारी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. एस.आर.के. सिंह ने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए बताया की भारत सरकार की समस्त कृषि से जुड़ी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए लोकल से वोकल की तर्ज पर काम करे. इस अवसर पर केन्द्र पर उपस्थित संचालक विस्तार सेवार्य से प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. टी.आर. शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. हरीश दीक्षित, डॉ. संजय वैश्यम्पायन, डॉ. शेखर बघेल, डॉ. अर्चना पाण्डेय, वैज्ञानिक डॉ. प्रमोद गुप्ता, डॉ. सिद्धार्थ नायक उपस्थिति रहें. कार्यक्रम के आयोजन में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. डी.के.सिंह, डॉ.ए.के सिंह, डॉ.नीलू विश्वकर्मा, डॉ. यतिराज खरे, डॉ. अक्षता तोमर, डॉ. आभा मिश्रा, डॉ. नितिन सिंघई, डॉ. प्रमोद शर्मा, श्रीमती जीजी ऐनी अब्राहम, डॉ. पूजा चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा. कार्यक्रम का संचालन डॉ. डी.के.सिंह एवं डॉ. यतिराज खरे द्वारा किया गया.

